

प्रेस नोट

थाना डिडौली पुलिस द्वारा वाहन चोरी की घटना का खुलासा कर शातिर वाहन चोर अवैध चाकू व चोरी की मोटर साइकिल सहित गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक अमरोहा श्री विनीत जायसवाल के कुशल निर्देशन एवं मार्गदर्शन में जनपद अमरोहा में अपराध नियंत्रण एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, श्री चन्द्र प्रकाश शुक्ल अपर पुलिस अधीक्षक अमरोहा के नेतृत्व एवं क्षेत्राधिकारी नगर के निकट पर्यवेक्षण में थाना डिडौली पुलिस द्वारा वाहन चोरी की घटना का खुलासा कर शातिर वाहन चोर मय अवैध चाकू व चोरी की मोटर साइकिल सहित गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण:- आज दिनांक 13.06.2022 को थाना डिडौली पुलिस द्वारा चैकिंग/गस्त के दौरान शातिर वाहन चोर फरमान पुत्र मौ0 अनीश निवासी मौ0 मुल्लाना थाना डिडौली जनपद अमरोहा को मय एक अवैध चाकू व चोरी की मोटर साइकिल UP 23N 9826 सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना डिडौली पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया।

पूछताछ पर अभियुक्त फरमान पुत्र मौ0 अनीश द्वारा बताया गया कि उक्त मोटर साइकिल को दिनांक 11.06.2022 की रात्रि अमरोहा जोया रोड स्थित ग्लोरियस रिसॉर्ट के सामने से चोरी करना स्वीकार किया है (सम्बन्धित मु0अ0सं0 231/22 धारा 379 भादवि थाना डिडौली जनपद अमरोहा) ।



गिरफ्तार अभियुक्त-

1. फरमान पुत्र मौ० अनीश निवासी मौ० मुल्लाना थाना डिडौली जनपद अमरोहा ।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त फरमान-

1. मु०अ०सं० 231/22 धारा 379 भादवि थाना डिडौली जनपद अमरोहा ।
2. मु०अ०सं० 232/22 धारा 4/25 आयुध अधि० थाना डिडौली जनपद अमरोहा ।

बरामदगी का विवरण-

1. 01 अवैध चाकू ।
2. चोरी की मोटर साइकिल UP 23N 9826, चेंचिस नं०- MBLHA11ENC9B19147, इंजन नं०- HA11ECC9B34114

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1. उ०नि० विपिन कुमार थाना डिडौली जनपद अमरोहा ।
2. हे० का० 236 देवेन्द्र कुमार थाना डिडौली जनपद अमरोहा ।
3. का० 492 अर्पित कुमार थाना डिडौली जनपद अमरोहा ।
4. का० 1226 मंदीप कुमार थाना डिडौली जनपद अमरोहा ।

PRO CELL AMROHA